



DAKSHATA



प्रशिक्षकों के सैंपल नोट या सत्र (सेशन) योजना प्रारूप

दिनांक	स्थान	सत्र संख्या	अवधि-मिनट
विषय (कोर्स से संबंधित):			
सत्र उद्देश्य:			
सत्र के अंत में प्रतिभागी यह सब कर पायेंगे:			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
तरीका और गतिविधियाँ			सामग्री / संसाधन
परिचय / गतिविधि			
प्रस्तुतिकरण / चर्चा			
गतिविधियाँ			
सारांश			
स्वयं आकलन/मूल्यांकन (सत्र के मुख्य बिन्दु, 'क्या काम किया-क्या नहीं', अगले सत्र के लिए क्या बदलाव करना है, आदि):			